



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

#### विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)  
( सामान्य परिनियम नियम )

प्रयागराज, शुक्रवार, 27 मई, 2022 ई०  
(ज्येष्ठ 6, 1944 शक संवत्)

#### कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या- 2619 /दस लाइसेंस-77/बीयर फुटकर नियमावली/2022-23/  
प्रयागराज, दिनांक 27 मई, 2022 ई०

#### अधिसूचना

सा०पी०नि०-34

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24-ख और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं० 12011/दस-लाइसेंस-77/इलाहाबाद 21 मार्च, 2001 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली-2001 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

#### उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)

( बीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2022

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) ( बीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

**2. नियम-2 का संशोधन** – उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001, जिसे आगे-उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

#### स्तम्भ-1

##### विद्यमान नियम

2(1) परिभाषाएं- जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;

(ख) “बीयर” में एल, स्टाउट, पोर्टर, साइडर तथा माल्ट से बनी अन्य सभी किण्वित शराब जिसकी तीव्रता 3 प्रतिशत वी/वी से 8 प्रतिशत वी/वी के मध्य है, सम्मिलित हैं;

(ग) “दैनिक लाइसेंस फीस” का तात्पर्य सम्पूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365 वें भाग से है;

(घ) “आबकारी वर्ष” का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;

(ङ) “परिवार” का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहिता पुत्री/पुत्रियां तथा आश्रित माता-पिता से है और इसमें वे सम्मिलित हैं;

(च) “प्रपत्र” का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;

(छ) “लाइसेंस प्राधिकारी” का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है;

(ज) “लाइसेंस फीस” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24-क के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विषेशाधिकार के लिये, राज्य सरकार के परामर्श से, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष अथवा उसके आंशिक भाग के लिये लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियत राशि से है;

परन्तु यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन मध्य सत्र में अवशेष अवधि के लिये किया जाता है, तो दुकान के लिए लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष की अवशेष अवधि के समानुपात में किया जायेगा;

(झ) “प्रतिभूति धनराशि” का तात्पर्य जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा राज्य सरकार के प्रति समस्त दावों और देयों का अन्तिम निस्तारण करने के पश्चात् प्रतिसंदेय ई-भुगतान के माध्यम से जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस के दस प्रतिशत के बराबर की धनराशि से है;

परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय;

#### स्तम्भ-2

##### तद्वारा प्रतिस्थापित नियम

2(1) परिभाषाएं - जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;

(ख) “बीयर” में एल, स्टाउट, पोर्टर, साइडर तथा माल्ट से बनी अन्य सभी किण्वित शराब जिसकी तीव्रता 3 प्रतिशत वी/वी से 8 प्रतिशत वी/वी के मध्य है, सम्मिलित हैं;

(ग) “दैनिक लाइसेंस फीस” का तात्पर्य सम्पूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365 वें भाग से है;

(घ) “आबकारी वर्ष” का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;

(ङ) “परिवार” का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहिता पुत्री/पुत्रियां तथा आश्रित माता-पिता से है और इसमें वे सम्मिलित हैं;

(च) “प्रपत्र” का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;

(छ) “लाइसेंस प्राधिकारी” का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है;

(ज) “लाइसेंस फीस” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24-क के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विषेशाधिकार के लिये, राज्य सरकार के परामर्श से, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष अथवा उसके आंशिक भाग के लिये लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियत राशि से है;

परन्तु यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन मध्य सत्र में अवशेष अवधि के लिये किया जाता है, तो दुकान के लिए लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष की अवशेष अवधि के समानुपात में किया जायेगा;

(झ) “प्रतिभूति धनराशि” का तात्पर्य जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद/ बैंक गारण्टी के माध्यम से अथवा राज्य सरकार के प्रति समस्त दावों और देयों का अन्तिम निस्तारण करने के पश्चात् प्रतिसंदेय ई-भुगतान के माध्यम से जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस के दस प्रतिशत के बराबर की धनराशि से है;

परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय;

स्तम्भ-1  
विद्यमान नियम

(ज) “कम तीव्रता के मादक पेय” का तात्पर्य कारबोनेट युक्त मादक पेय से है, जिसमें 5 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता और 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक 10 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता एल्कोहल हो, जो एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई०एन०ए०) से निर्मित की गई हो और जो वासक या रंजक द्रव्य या दोनों या अन्य द्रव्य को मिलाकर परिष्कृत की गयी हो जिससे कि वह विशिष्ट स्वाद वाली हो जाय;

(ट) “अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क” का तात्पर्य, बीयर/ वाइन/ कम तीव्रता के मादक पेय (एल०ए०बी०) के अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 रुपये के अगले गुणांक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आवसनी/यवासवनी/विनटनरी स्तर पर संदेय होगी तथा आसवनी/यवासवनी/विनटनरी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स डिस्टलरी लागत/एक्स ब्रिवरी लागत/एक्स विनटनरी लागत के अतिरिक्त वसूली योग्य होगी जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अलावा वसूल की जा सकेगी;

(ठ) ‘धरोहर धनराशि’ का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 भाग के बराबर की धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी;

(ड) ‘अनुक्रम’ का तात्पर्य ई-लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है;

(ढ) “पोर्टल” का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है;

(ण) “ऋणशोधन क्षमता” का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने वाले आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय मानदण्ड से है;

(त) “व्यक्ति” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;

(थ) “व्यवस्थापन” का तात्पर्य नवीकरण, ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है;

स्तम्भ-2  
तद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(ज) “कम तीव्रता के मादक पेय” का तात्पर्य कारबोनेट युक्त मादक पेय से है, जिसमें 5 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता और 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक 10 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता एल्कोहल हो, जो एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई०एन०ए०) से निर्मित की गई हो और जो वासक या रंजक द्रव्य या दोनों या अन्य द्रव्य को मिलाकर परिष्कृत की गयी हो जिससे कि वह विशिष्ट स्वाद वाली हो जाय;

(ट) “अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क” का तात्पर्य, बीयर/ वाइन/ कम तीव्रता के मादक पेय (एल०ए०बी०) के अधिकतम फुटकर मूल्य को दस रुपये के अगले गुणांक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आवसनी/यवासवनी/विनटनरी स्तर पर संदेय होगी तथा आसवनी/यवासवनी/विनटनरी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स डिस्टलरी लागत/एक्स ब्रिवरी लागत/एक्स विनटनरी लागत के अतिरिक्त वसूली योग्य होगी जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी;

(ठ) ‘धरोहर धनराशि’ का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 भाग के बराबर की धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी;

(ड) ‘अनुक्रम’ का तात्पर्य ई/लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है;

(ढ) “पोर्टल” का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है;

(ण) “ऋणशोधन क्षमता” का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने वाले आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय मानदण्ड से है;

(त) “व्यक्ति” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;

(थ) “व्यवस्थापन” का तात्पर्य नवीकरण, ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है;

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

(द) “प्रतिफल शुल्क” का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा 30 के अधीन बियर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय पर राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क से है, जो बियर और कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जाएगी;

(ध) ‘राज्य’ का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

(न) ‘वाइन’ का तात्पर्य द्राक्षासव या किसी अन्य फल के गूदे या रस के अल्कोहलयुक्त किण्वन से प्राप्त उत्पाद से है जो प्राकृतिक हो या तेज की गयी हो और जिसकी अल्कोहलिक अर्न्तवस्तु 42 प्रतिशत प्रूफ स्पिरिट से अधिक न हो।

(प) “त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व” का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ किसी आबकारी वर्ष के त्रैमास में अपनी फुटकर दुकान के लिये उठाये जाने हेतु प्रत्याभूत बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) से प्राप्त समान राजस्व से है।

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।

3- **नियम-6 का संशोधन** - उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

नियम-6 लाइसेंस की स्वीकृति -

इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस का अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान किये जाने पर और जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रतिभूति जमा किये जाने पर लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा। परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जायेगी। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकन द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वमित्व प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहाँ से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया है।

## स्तम्भ-2

## तद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(द) “प्रतिफल शुल्क” का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा 30 के अधीन बियर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय पर राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क से है, जो बियर और कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जाएगी;

(ध) ‘राज्य’ का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

(न) ‘वाइन’ का तात्पर्य द्राक्षासव या किसी अन्य फल के गूदे या रस के अल्कोहलयुक्त किण्वन से प्राप्त उत्पाद से है जो प्राकृतिक हो या तेज की गयी हो और जिसकी अल्कोहलिक अर्न्तवस्तु 42 प्रतिशत प्रूफ स्पिरिट से अधिक न हो।

(प) “त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व” का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ किसी आबकारी वर्ष के त्रैमास में अपनी फुटकर दुकान के लिये उठाये जाने हेतु प्रत्याभूत बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) से प्राप्त समान राजस्व से है।

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।

## स्तम्भ-2

## तद्वारा प्रतिस्थापित नियम

नियम-6 लाइसेंस की स्वीकृति -

इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस का अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान किये जाने पर और जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद/बैंक गारण्टी के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रतिभूति जमा किये जाने पर लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा: परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जायेगी। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकन द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वमित्व प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहाँ से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया है।

**4- नियम 8 का संशोधन**— उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

**स्तम्भ-1**

**विद्यमान नियम**

**8-आवेदकों के लिए पात्रता की शर्तें-**

फुटकर बीयर की बिक्री की दुकानों के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी- अर्थात्-

- (क) आवेदन, एक व्यक्ति द्वारा हो जो भारत का नागरिक हो, परन्तु नवीकरण की स्थिति में सह-आवेदक, यदि कोई हो, जो भारत का नागरिक हो, भी अनुज्ञात होगा।

भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी, फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये अर्ह नहीं होगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता अथवा आसवनी/यवासवनी/ मदिरा/बीयर निर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने के लिये पात्र नहीं होगा।

दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन अनुज्ञात न होगा। लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में उसका विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हो लाइसेंस की अवशेष अवधि के लिए लाइसेंस बना रह सकता है।

परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की दशा में जीवित व्यक्ति मृतक के विधिक वारिस (वारिसों)के साथ यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस बना रह सकेगा या दोनों व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में उसके विधिक वारिस (उत्तराधिकारी) यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंस बना रह सकेगा दो व्यक्तियों के वैधानिक दायित्वों के मध्य कोई भेद नहीं किया जायेगा जो संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।

- (ख) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो।

- (ग) व्यतिक्रमी/काली सूची वाला न हो या अधिनियम या तद्दीन बनाई गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति, जो किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।

- (गग) आवेदनकर्ता, किसी एक दुकान के लिए स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा। परन्तु नवीकरण की स्थिति में आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों पात्र होंगे तथा नवीकरण हेतु उनकी पारस्परिक सहमति आवश्यक होगी।

**स्तम्भ-2**

**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

**8-आवेदक के लिए पात्रता की शर्तें-**

फुटकर बीयर की बिक्री की दुकानों के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी- अर्थात्-

- (क) आवेदन, एक व्यक्ति द्वारा हो जो भारत का नागरिक हो, परन्तु नवीकरण की स्थिति में सह-आवेदक, यदि कोई हो, जो भारत का नागरिक हो, भी अनुज्ञात होगा।

भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी, फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये अर्ह नहीं होगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता अथवा आसवनी/यवासवनी/ मदिरा/बीयर निर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने के लिये पात्र नहीं होगा।

दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन अनुज्ञात न होगा। लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में उसका विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हो लाइसेंस की अवशेष अवधि के लिए लाइसेंस बना रह सकता है।

परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की दशा में जीवित व्यक्ति मृतक के विधिक वारिस (वारिसों)के साथ यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस बना रह सकेगा या दोनों व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में उसके विधिक वारिस (उत्तराधिकारी) यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंस बना रह सकेगा दो व्यक्तियों के वैधानिक दायित्वों के मध्य कोई भेद नहीं किया जायेगा जो संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।

- (ख) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो।

- (ग) व्यतिक्रमी/काली सूची वाला न हो या अधिनियम या तद्दीन बनाई गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति, जो किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।

- (गग) आवेदनकर्ता, किसी एक दुकान के लिए स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा। परन्तु नवीकरण की स्थिति में आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों पात्र होंगे तथा नवीकरण हेतु उनकी पारस्परिक सहमति आवश्यक होगी।

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

- (घ) निम्नलिखित के प्रमाण स्वरूप पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा:-
- (एक) यह कि उसके पास समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा उसने किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध किया है।
- (दो) यह कि उसकी दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
- (तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोष सिद्ध न किया गया हो।
- (चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में उसके चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र यह दर्शाते हुए प्रस्तुत करना होगा कि लाइसेंस जारी होने के पूर्व उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक अभिलेख नहीं है।
- (पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी से अधिकृत बिक्रेता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करेगा।
- (छः) यह कि उस पर किसी सार्वजनिक देयों या सरकारी देयों का बकाया नहीं है।
- (सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्योरा, यदि अपेक्षित होगा, लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (घ) निम्नलिखित के प्रमाण स्वरूप पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा:-
- (एक) यह कि उसके पास समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा उसने किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध किया है।
- (दो) यह कि उसकी दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
- (तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोष सिद्ध न किया गया हो।
- (चार) यह कि **लाइसेंसधारी** के रूप में उसके चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, **के जिला कलक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिशनरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट, सहायक पुलिस आयुक्त की रैंक से अनिम्न अधिकारी** द्वारा जारी प्रमाण-पत्र यह दर्शाते हुए प्रस्तुत करना होगा कि लाइसेंस जारी होने के पूर्व उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक अभिलेख नहीं है।
- (पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-(तीन) में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी से अधिकृत बिक्रेता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करेगा।
- (छः) यह कि उस पर किसी सार्वजनिक देयों या सरकारी देयों का बकाया नहीं है।
- (सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्योरा, यदि अपेक्षित होगा, लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(आठ) यह कि आवेदक माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त यह प्रमाणित हो जाता है कि वह माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे आवंटित किया गया लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

(नौ) यह कि आवेदक बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी भी लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अपात्र होगा।

(दस) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की स्थिति में चयन के 48 घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे आन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया है, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।

(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नहीं किया है।

(ड) आवेदक द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, की स्कैन प्रति आनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।

लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की स्थिति में, धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट, चयन के पश्चात् अड़तालीस घंटे के भीतर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा जिसे दुकान की सभी देयताओं के भुगतान के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा।

(च) आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिए अवधारित लाइसेंस शुल्क की धनराशि से कम नहीं होगी।

परन्तु नवीकरण की स्थिति में गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किया गया ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा किसी प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र, यदि विधिमान्य है एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(आठ) यह कि आवेदक माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त यह प्रमाणित हो जाता है कि वह माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे आवंटित किया गया लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

(नौ) यह कि आवेदक बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी भी लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अपात्र होगा।

(दस) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की स्थिति में चयन के 48 घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे आन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया है, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।

(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नहीं किया है।

(ड) आवेदक द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, की स्कैन प्रति आनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।

लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की स्थिति में, धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट, चयन के पश्चात् अड़तालीस घंटे के भीतर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा जिसे दुकान की सभी देयताओं के भुगतान के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा।

(च) आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिए अवधारित लाइसेंस शुल्क की धनराशि से कम नहीं होगी।

परन्तु नवीकरण की स्थिति में गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किया गया ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा किसी प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र, यदि विधिमान्य है एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होगा।

5- **नियम-9 का संशोधन** - उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

9. लाइसेंस के लिये जिला स्तरीय समिति -

विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापियों के चयन हेतु एक जिला स्तरीय समिति होगी। समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे अर्थात्:-

(एक)	जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो)	जिले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(तीन)	आबकारी आयुक्त द्वारा नामित आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी	सदस्य
(चार)	जिले का जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य/सचिव

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

9. लाइसेंस के लिये जिला स्तरीय समिति -

विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लाइसेंसधारियों के चयन हेतु एक जिला स्तरीय समिति होगी। समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे अर्थात्:-

(एक)	जिला का कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो)	सम्बन्धित जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिशनरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी, जो सहायक पुलिस आयुक्त की रैंक से अनिम्न हो,	सदस्य
(तीन)	आबकारी आयुक्त द्वारा नामित आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी	सदस्य
(चार)	जिला का जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य/सचिव

6- **नियम-10 का संशोधन** - उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

10-लाइसेंसधारी का चयन-

(क) (एक) राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निबन्धन और शर्तों के अधीन दुकान के लाइसेंस का ऑनलाइन नवीकरण किया जा सकेगा।

(दो) नवीकरण न होने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेंगे और समस्त पात्र तथा अपात्र आवेदनों की अपात्रता के कारणों को उल्लिखित करते हुए सूची तैयार करेगा और इस सूची को ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु गठित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

10-लाइसेंसधारी का चयन-

(क) (एक) राज्य सरकार द्वारा यथा **विनिर्दिष्ट** निबन्धन और शर्तों के अधीन दुकान के लाइसेंस का ऑनलाइन नवीकरण किया जा सकेगा।

(दो) नवीकरण न होने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा **विनिर्दिष्ट** ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेंगे और समस्त पात्र तथा अपात्र आवेदनों की अपात्रता के कारणों को उल्लिखित करते हुए सूची तैयार करेगा और इस सूची को ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु गठित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।



**स्तम्भ-1**
**विद्यमान नियम**

(ख) उक्त समिति पात्र एवं अपात्र आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लॉटरी की स्थिति में अर्ह आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन कम्प्यूटर चलित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार देशी मदिरा, माडल शाप, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के क्रम में अपनायी जायेगी। ई-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन की स्थिति में भी पूर्वोक्त अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण प्रदेश में सभी श्रेणी की देशी शराब, माडल शाप, विदेशी मदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी।

परन्तु यह कि पूर्वोक्त निर्बंधन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार लाइसेंसों के नवीकरण के लिए लागू नहीं हो गाय,

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों का नवीकरण होने की स्थिति में वह ई-लाटरी के माध्यम से अग्रतर दुकानों के चयन हेतु पात्र नहीं होगा।

(ग) यदि चयनित आवेदक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताएँ पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन प्राप्त न हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल कदम उठायेगा।

**स्तम्भ-2**
**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

(ख) उक्त समिति पात्र एवं अपात्र आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लॉटरी की स्थिति में अर्ह आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन कम्प्यूटर चलित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार देशी मदिरा, माडल शाप, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के क्रम में अपनायी जायेगी। ई-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन की स्थिति में भी पूर्वोक्त अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण प्रदेश में सभी श्रेणी की देशी शराब, माडल शाप, विदेशी मदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी।

परन्तु यह कि पूर्वोक्त निर्बंधन राज्य सरकार द्वारा अधिकृत मानदण्डों के अनुसार लाइसेंसों के नवीकरण एवं लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में विधिक वारिस के पक्ष में लाइसेंस के नामान्तरण से सम्बन्धित मामलों के लिए लागू नहीं होगा,

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों का नवीकरण होने की स्थिति में वह ई-लाटरी के माध्यम से अग्रतर दुकानों के चयन हेतु पात्र नहीं होगा।

(ग) यदि चयनित आवेदक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताएँ पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन प्राप्त न हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल कदम उठायेगा।

**7-नियम-12 का संशोधन-** उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

**स्तम्भ-1**

**विद्यमान नियम**

**12- लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान-**

यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रूप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के दस कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के बीस कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दे। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा एवं प्रतिभूति धनराशि सावधि जमा रसीद के माध्यम से जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत हो अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी।

परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद अथवा राष्ट्रीय बचत-पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति, तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।

अनुवर्ती वर्ष में, दुकान का लाइसेंस लाइसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा। नवीकरण हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नियत समयावधि में जमा की जायेगी।

यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, जो उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

**स्तम्भ-2**

**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

**12- लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान-**

यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रूप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के दस कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के बीस कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दे। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा एवं प्रतिभूति धनराशि सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी के माध्यम से जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत हो अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी।

परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद अथवा राष्ट्रीय बचत-पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति, तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।

अनुवर्ती वर्ष में, दुकान का लाइसेंस लाइसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा। नवीकरण हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नियत समयावधि में जमा की जायेगी।

**परन्तु, यह कि** यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा;

**परन्तु यह और कि** ई लाटरी/ई टेण्डर के माध्यम से लाइसेंस व्यवस्थित होने की दशा में, उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी है, तथा लाइसेंस के नवीकृत होने की दशा में उसकी गत वर्ष की जमा प्रतिभूति का पंद्रह प्रतिशत तथा नवीकरण फीस व लाइसेंस फीस, यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

**8- नियम-13 का संशोधन** – उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-13 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

**स्तम्भ-1**

**विद्यमान नियम**

**नियम-13 बीयर/वाइन का उठान-**

(क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी कम तीव्रता के मादक पेय सहित बीयर एवं वाइन के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) जो समय-समय पर उदग्रहीत किये जायं, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा करने के पश्चात् जिला के किसी थोक लाइसेंसधारी वि०म०-2/वि०म० 2(ख) लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि०म०-2/वि० म० 2(ख) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त करेगा।

अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

(ख) अधिकतम फुटकर मूल्य- बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों के लेबुलों पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित होगा। लाइसेंसधारी बोतलों के लेबुलों पर अंकित फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा और यदि ऐसा करता पाया जायेगा तो उसे नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।

(ग) लाइसेंसधारी के लिए ग्राहकों की मौसमी आवश्यकताओं के अनुसार स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने और साथ ही साथ बाजार में नकली आपूर्तियों के किन्हीं अवसरों को दूर करने हेतु लगातार बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय का उठान करना बाध्यकारी होगा। उसे निरन्तर पोर्टल पर लिखित मांगपत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। इस क्रम में उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाइसेंसधारी के लिए कम से कम पूर्ववर्ती वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में उठाई गयी बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क के बराबर की बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा।

(घ) (एक) यदि लाइसेंसधारी किसी त्रैमास में कम से कम अपने त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल०ए०बी०) का उठान करने में विफल रहता है, तो अगले त्रैमास हेतु उठान रोक दी जायेगी।

**स्तम्भ-2**

**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

**13 बीयर/वाइन का उठान-**

(क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी कम तीव्रता के मादक पेय सहित बीयर एवं वाइन के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) जो समय-समय पर उदग्रहीत किये जायं, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा करने के पश्चात् जिला के किसी थोक लाइसेंसधारी वि०म०-2/वि०म० 2(ख) लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि०म०-2/वि० म० 2(ख) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त करेगा।

अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

(ख) अधिकतम फुटकर मूल्य- बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों के लेबुलों पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित होगा। लाइसेंसधारी बोतलों के लेबुलों पर अंकित फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा और यदि ऐसा करता पाया जायेगा तो उसे नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।

(ग) लाइसेंसधारी के लिए ग्राहकों की मौसमी आवश्यकताओं के अनुसार स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने और साथ ही साथ बाजार में नकली आपूर्तियों के किन्हीं अवसरों को दूर करने हेतु लगातार बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय का उठान करना बाध्यकारी होगा। उसे निरन्तर पोर्टल पर लिखित मांगपत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। इस क्रम में उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाइसेंसधारी के लिए कम से कम पूर्ववर्ती वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में उठाई गयी **अथवा प्रत्येक त्रैमास हेतु यथा आगणित** बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क के बराबर की बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा।

(घ) (एक) यदि लाइसेंसधारी किसी त्रैमास में कम से कम अपने त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल०ए०बी०) का उठान करने में विफल रहता है, तो अगले त्रैमास हेतु उठान रोक दी जायेगी।

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

- (दो) लाइसेंसधारी विलम्बमर्षण हेतु एवं उस त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय उठाने के लिए शपथ पत्र के साथ अनुरोध करेगा। विलम्बमर्षित किये जाने पर लाइसेंसधारी, त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करेगा।
- (तीन) इस प्रकार जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति, अगले त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व सहित गत त्रैमास में इस प्रकार हुयी कमी के बराबर बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय का उठान किये जाने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।
- (चार) यदि लाइसेंसधारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एक या अधिक त्रैमासों की त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के बराबर बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय का उठान करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति को राजस्व की ऐसी कमी के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी और शेष प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी।
- यदि जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति और प्रतिभूति राजस्व में कमी के सापेक्ष समायोजन के लिए अपर्याप्त हो तो शेष राजस्व की वसूली उसी प्रकार से की जायेगी मानों यह भू- राजस्व का बकाया हो।
- (ड) (एक) त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का अंश, जिसे वह उठाने में सक्षम न हो, उसी प्रकार के अन्य लाइसेंसधारी को अन्तरित करना चाहने वाले लाइसेंसधारी को, किसी आबकारी जिला के भीतर त्रैमासिक आधार पर ऐसे अंश(कोटा) का अंतरण करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है।
- (दो) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी, अंतरिती लाइसेंसधारी की सहमति से जिला के जिला आबकारी अधिकारी से अनुरोध करेगा। अंतरण की निबन्धनों का विनिश्चय, दोनों अंतरणकर्ता और अंतरिती लाइसेंसधारियों द्वारा पारस्परिक रूप से किया जायेगा।

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (दो) लाइसेंसधारी विलम्बमर्षण हेतु एवं उस त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय उठाने के लिए शपथ पत्र के साथ अनुरोध करेगा। विलम्बमर्षित किये जाने पर लाइसेंसधारी, त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करेगा।
- (तीन) इस प्रकार जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति, अगले त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व सहित गत त्रैमास में इस प्रकार हुयी कमी के बराबर बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय का उठान किये जाने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।
- (चार) यदि लाइसेंसधारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एक या अधिक त्रैमासों की त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के बराबर बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय का उठान करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति को राजस्व की ऐसी कमी के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी और शेष प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी।
- यदि जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति और प्रतिभूति राजस्व में कमी के सापेक्ष समायोजन के लिए अपर्याप्त हो तो शेष राजस्व की वसूली उसी प्रकार से की जायेगी मानों यह भू- राजस्व का बकाया हो।
- (ड) (एक) त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का अंश, जिसे वह उठाने में सक्षम न हो, उसी प्रकार के अन्य लाइसेंसधारी को अन्तरित करना चाहने वाले लाइसेंसधारी को, किसी आबकारी जिला के भीतर त्रैमासिक आधार पर ऐसे अंश(कोटा) का अंतरण करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है।
- (दो) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी, अंतरिती लाइसेंसधारी की सहमति से जिला के जिला आबकारी अधिकारी से अनुरोध करेगा। अंतरण की निबन्धनों का विनिश्चय, दोनों अंतरणकर्ता और अंतरिती लाइसेंसधारियों द्वारा पारस्परिक रूप से किया जायेगा।

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

(तीन) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के अनुरोध का अनुमोदन किये जाने पर उसके द्वारा अंतरित किये जाने हेतु करारकृत कोटा को उसके मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में से घटा दिया जायेगा और उसे उठा लिया गया समझा जायेगा तथा उसे अंतरिती लाइसेंसधारी के लेखा में अंतरित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के रूप में जोड़ दिया जायेगा। यह मात्रा अंतरिती लाइसेंसधारी के मूल मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अतिरिक्त होगी और उसका मूल कोटा उठाये जाने से सम्बन्धित उसका दायित्व प्रभावित नहीं होगा।

(चार) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व अंतरण फीस, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी द्वारा ऐसा अनुरोध किये जाने के समय संदेय होगी।

परन्तु यह कि इस उपबन्ध के अधीन अंतरित कुल कोटा, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उसी प्रकार से, अंतरिती लाइसेंसधारी अपने त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक ऐसा अंतरित कोटा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

9- नियम-17 क का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-17क के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

## 17 क. अन्तरिम व्यवस्थापन-

(क) यदि लाइसेंस को इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में निलम्बित, निरस्त या समर्पित किया जाता है या यदि किसी अन्य कारण से दुकान का व्यवस्थापन होना रह गया हो तो लाइसेंस प्राधिकारी सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित दरों के उच्चतम प्रस्ताव पर दैनिक लाइसेंस फीस का भुगतान किए जाने पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन एक बार में अधिकतम चौदह दिनों के लिए या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक, जो भी पहले हो, कर सकता है। एक दुकान केलिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को दैनिक लाइसेंस फीस की दर के अनुसार अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि के लिए प्रतिभूति धनराशि जमा करना भी अपेक्षित होगा।

परन्तु लाइसेंस प्राधिकारी आबकारी आयुक्त को पूर्व सूचना दिये बिना दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन दो बार से अधिक नहीं करेगा।

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(तीन) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के अनुरोध का अनुमोदन किये जाने पर उसके द्वारा अंतरित किये जाने हेतु करारकृत कोटा को उसके मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में से घटा दिया जायेगा और उसे उठा लिया गया समझा जायेगा तथा उसे अंतरिती लाइसेंसधारी के लेखा में अंतरित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के रूप में जोड़ दिया जायेगा। यह मात्रा अंतरिती लाइसेंसधारी के मूल मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अतिरिक्त होगी और उसका मूल कोटा उठाये जाने से सम्बन्धित उसका दायित्व प्रभावित नहीं होगा।

(चार) “निकाल दिया गया”

परन्तु यह कि इस उपबन्ध के अधीन अंतरित कुल कोटा, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उसी प्रकार से, अंतरिती लाइसेंसधारी अपने त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक ऐसा अंतरित कोटा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

## 17 क. अन्तरिम व्यवस्थापन-

(क) यदि लाइसेंस को इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में निलम्बित, निरस्त या समर्पित किया जाता है या यदि किसी अन्य कारण से दुकान का व्यवस्थापन होना रह गया हो तो लाइसेंस प्राधिकारी सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित दरों के उच्चतम प्रस्ताव पर दैनिक लाइसेंस फीस का भुगतान किए जाने पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन एक बार में अधिकतम चौदह दिनों के लिए या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक, जो भी पहले हो, कर सकता है। एक दुकान केलिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को दैनिक लाइसेंस फीस की दर के अनुसार अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि के लिए प्रतिभूति धनराशि जमा करना भी अपेक्षित होगा। लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी दुकान का ऐसा व्यवस्थापन दो से अधिक बार किया जा सकता है, परन्तु ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त को सूचित करना आवश्यक होगा।

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

(ख) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण की स्थिति में दुकान का मध्य सत्र में नियमित व्यवस्थापन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-टेंडर प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। पूर्वोक्त व्यवस्थापन की सूचना आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा।

10- प्रपत्र एफ0एल0-5ख का संशोधन- उक्त नियमावली, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र एफ.एल.5ख के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात:-

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

प्रपत्र एफ0एल0-5(ख)

(नवीकरण हेतु)

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोटलों में बीयर (एल0ए0बी0 सहित) की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस

आवेदक का फोटो	सह-आवेदक का फोटो
---------------	------------------

दुकान का फोटो

दुकान का अक्षांश/देशान्तर .....

लाइसेंस संख्या ..... वर्ष .....

दुकान का नाम ..... जिला

लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में)

..... (शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रु0 ..... (अंकों में)

..... (शब्दों में)

भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) .....

उत्तर : .....

दक्षिण : .....

पूरब : .....

पश्चिम: .....

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते

(1) ..... पुत्र ..... निवासी

(2) ..... पुत्र ..... निवासी

विक्रेता के नाम, पिता के नाम और पते

(1)..... पुत्र..... निवासी .....

(2)..... पुत्र..... निवासी .....

(3)..... पुत्र..... निवासी .....

(4)..... पुत्र ..... निवासी .....

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(ख) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण की स्थिति में दुकान का मध्य सत्र में नियमित व्यवस्थापन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-टेंडर प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। पूर्वोक्त व्यवस्थापन की सूचना आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा।

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

प्रपत्र एफ0एल0-5 ख

(नवीकरण हेतु)

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोटलों में बीयर, वाइन एवं (एल0ए0बी0 सहित) की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस

दुकान का फोटो

आवेदक का फोटो

सह आवेदक का फोटो

दुकान का अक्षांश/देशान्तर .....

लाइसेंस संख्या ..... जिला..... परिक्षेत्र .....

लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में)

..... (शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रु0 ..... (अंकों में)

..... (शब्दों में)

भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के बिना) .....

उत्तर : .....

दक्षिण : .....

पूरब : .....

पश्चिम: .....

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते

(1) ..... पुत्र ..... निवासी

(2) ..... पुत्र ..... निवासी

“निकाल दिया गया”

**स्तम्भ-1**
**विद्यमान नियम**

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मानक बोटलों या कैनो (650 मि०ली०), (500 मि०ली०), (330 मि०ली०), (300 मि०ली०) और 275 मि०ली० में बीयर एवं 1000मि०ली०, 275मि०ली० की धारिता में केवल कम तीव्रता के मादक पेय और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है, की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को, जिला ..... के अन्तर्गत ..... स्थान, पुलिस थाना ..... तहसील ..... के लिये दिनांक ..... से 31 मार्च 20..... हेतु, जिसके लिये नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित विशेष और सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

**सामान्य और विशेष शर्तें**

1-लाइसेंसधारी, बीयर (वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय सहित) की आपूर्ति, अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से समय समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् जिला के थोक लाइसेंसधारी ( वि०श०-2/2ख)से प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि०श०-2/2ख लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक लाइसेंसधारी (वि०श०-2/2ख) से बीयर, वाइन और कम तीव्रता के पेय आपूर्ति प्राप्त करेगा।

2-लाइसेंसधारी, अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में, जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

3-लाइसेंस प्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर 'में' उपभोग /पेय नहीं की जायेगी।

**स्तम्भ-2**
**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मानक बोटलों या कैनो 650 मि०ली०, 500 मि०ली०, 330 मि०ली०, 300 मि०ली० और 275 मि०ली० में बीयर एवं 1000मि०ली०, 275मि०ली० की धारिता में केवल कम तीव्रता के मादक पेय और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है, की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को, जिला ..... के अन्तर्गत ..... स्थान, पुलिस थाना ..... तहसील ..... के लिये दिनांक ..... से 31 मार्च 20..... हेतु, जिसके लिये नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित विशेष और सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

**सामान्य और विशेष शर्तें**

1-लाइसेंसधारी, बीयर (वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय सहित) की आपूर्ति, अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से समय समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् जिला के थोक लाइसेंसधारी ( वि०श०-2/वि०श०2ख)से प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि०श०-2/वि०श०2ख लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक लाइसेंसधारी (वि०श०-2/वि०श०)2ख) से बीयर, वाइन और कम तीव्रता के पेय आपूर्ति प्राप्त करेगा।

2-लाइसेंसधारी, अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में, जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

3-लाइसेंस प्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग /पेय नहीं की जायेगी।

## स्तम्भ-1

## वियमान नियम

4-किसी भी व्यक्ति को 650 मि०ली०, 500मि०ली०, 330मि०ली० 300 मि०ली० और 275 मि०ली० में बीयर व कम तीव्रता के मादक पेय एवं वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है तथा अतिरिक्त रूप से केवल कम तीव्रता के मादक पेय के लिये 1000मि०ली० व 275मि०ली० की मानक बोतलों एवं कैंस में बिक्री की जायेगी।

5-बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय के लेबिल पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित होगा। फुटकर बिक्री का लाइसेंसधारी मुद्रित अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक प्रभारित नहीं करेगा।

6-उपरिलिखित क्षमता के मुहरबन्द बोतलों या कैंस में विहित तीव्रता और मात्रा के बीयर एवं वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड चस्पा हो, जैसा कि आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

7-लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ०एल०-25ख) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित किया गया हो, नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा एवं उसे वेबसाइट पर अपलोड करेगा और उसे जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।

8- लाइसेंसधारी बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय के सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंसयुक्त परिसर में करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अधीन विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी०ओ०एस० (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी।

9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृष्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:-

“दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

“शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।”

## स्तम्भ-2

## एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

4-किसी भी व्यक्ति को 650 मि०ली०, 500मि०ली०, 330मि०ली० 300 मि०ली० और 275 मि०ली० में बीयर व कम तीव्रता के मादक पेय एवं वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है तथा अतिरिक्त रूप से केवल कम तीव्रता के मादक पेय के लिये 1000मि०ली० व 275मि०ली० की मानक बोतलों एवं कैंस में बिक्री की जायेगी।

5- बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय के लेबिल पर 1x1 सेंटीमीटर के दृश्य शब्दों में तीव्रता एवं अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित होगा। फुटकर बिक्री का लाइसेंसधारी मुद्रित अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक प्रभारित नहीं करेगा।

6-उपरिलिखित क्षमता के मुहरबन्द बोतलों या कैंस में विहित तीव्रता और मात्रा के बीयर एवं वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड चस्पा हो, जैसा कि आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

7-लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ०एल०-25ख) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित किया गया हो, नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा एवं उसे वेबसाइट पर अपलोड करेगा और उसे जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।

8- लाइसेंसधारी बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय के सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंसयुक्त परिसर में करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अधीन विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी०ओ०एस० (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी।

9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृष्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:-

“दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

“शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।”



## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

10- लाइसेंसधारी, किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत बिक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।

11-लाइसेंसधारी किसी भी क्रेता को 7.8 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित बीयर प्रत्येक अलग-अलग तथा 3 ली० भारत में भरी हुई व आयातित वाइन दोनों अलग-अलग एवं 6 लीटर की मात्रा से अधिक कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री एक बार में नहीं करेगा, जब तक अन्यथा अनुमति प्राप्त न हो।

12-उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मों या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मों, इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं करेगा।

13-लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोटलों या कैनों व उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली से फिक्स किया गया सुरक्षा कोडया मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।

14- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाश्री), रंग, ईत्र, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।

15- सिवाय लाइसेंसधारी /विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।

16- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के दृष्टिगत उपभोक्ता को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। छूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी निषिद्ध है।

17- लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

10- लाइसेंसधारी, किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो **इक्कीस** वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत बिक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।

11-लाइसेंसधारी किसी भी क्रेता को 7.8 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित बीयर प्रत्येक अलग-अलग तथा 3 **लीटर** भारत में भरी हुई व आयातित वाइन दोनों अलग-अलग एवं 6 लीटर की मात्रा से अधिक कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री एक बार में नहीं करेगा, जब तक अन्यथा अनुमति प्राप्त न हो।

12-उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मों या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मों, इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं करेगा।

13-लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोटलों या कैनों व उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली से फिक्स किया गया सुरक्षा कोडया मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।

14- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाश्री), रंग, ईत्र, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।

15-सिवाय लाइसेंसधारी /विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।

16- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के **दृष्टिगत** उपभोक्ता को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। छूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी निषिद्ध है।

17- लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

18-लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, सिवाय ऐसी गतिविधियों के जिसके लिये कि लाइसेंस दिया गया है।

19-लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसका निस्तारण समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

20-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त एवं लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।

दिनांक .....

जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी

**प्रपत्र-5ख(1) प्रतिस्थापन-** उक्त नियमावली, में प्रपत्र 5ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात:-

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

प्रपत्र एफ0एल0-5 ख (1)

(नवीन लाइसेंस हेतु)

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोतलों में बीयर (एल0ए0बी0 सहित) की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस

आवेदक का फोटो	दुकान का फोटो
---------------	---------------

दुकान का अक्षांश/देशान्तर .....

लाइसेंस संख्या ..... वर्ष .....

जिला ..... मुहल्ला .....

लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में)  
..... (शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रु0 ..... (अंकों में)  
..... (शब्दों में)

भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) .....

उत्तर : .....

दक्षिण : .....

पूरब : .....

पश्चिम: .....

## स्तम्भ-2

## एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

18-लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, सिवाय ऐसी गतिविधियों के जिसके लिये कि लाइसेंस दिया गया है।

19-लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसका निस्तारण समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

20-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त एवं लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।

21- लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री का कार्य करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी तदुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा निर्गत करेगा।

दिनांक .....

जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी

## स्तम्भ-2

## एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

प्रपत्र एफ0एल0-5 ख (1)

(नवीन लाइसेंस हेतु)

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोतलों में बीयर (वाइन एवं एल0ए0बी0 सहित) की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस

आवेदक का फोटो	दुकान का फोटो
---------------	---------------

दुकान का अक्षांश/देशान्तर .....

लाइसेंस संख्या .....

जिला .....

मुहल्ला (परिक्षेत्र) .....

लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में)  
..... (शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रु0 ..... (अंकों में)  
..... (शब्दों में)

भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के बिना) .....

उत्तर : .....

दक्षिण : .....

पूरब : .....

पश्चिम: .....

**स्तम्भ-1**
**विद्यमान नियम**

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते

(1) ..... पुत्र ..... निवासी .....

(2) ..... पुत्र ..... निवासी .....

विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते

(1) ..... पुत्र ..... निवासी .....

(2) ..... पुत्र ..... निवासी .....

(3) ..... पुत्र ..... निवासी .....

(4) ..... पुत्र ..... निवासी .....

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मानक बोटलों, (650 मि०ली०), (500 मि०ली०), (330 मि०ली०), (300 मि०ली०) और (275 मि०ली०) में बीयर एवं 1000 मि०ली०, 275 मि०ली० की धारिता में केवल एल०ए०बी० और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है, की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को, जिला ..... के अन्तर्गत ..... स्थान, पुलिस थाना ..... तहसील ..... के लिये दिनांक ..... से 31 मार्च 20 हेतु, जिसके लिये नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 और स्वापक ओशधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

**सामान्य एवं विशेष शर्तें**

1-लाइसेंसधारी, बीयर (वाइन एवंकम तीव्रता के मादक पेय सहित) की आपूर्ति, अधिमानतः ई-पेमेंट के माध्यम से समय समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् जिला के थोक लाइसेंसधारी (वि०श०-2/2ख) से प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि०श०-2/2ख लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक लाइसेंसधारी (वि०श०-2/2ख) से बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति प्राप्त करेगा।

**स्तम्भ-2**
**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते

(1) ..... पुत्र ..... निवासी .....

(2) ..... पुत्र ..... निवासी “निरसित”

**“निकाल दिया गया”**

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मानक बोटलों, 650 मि०ली०, 500 मि०ली०, 330 मि०ली०, 300 मि०ली० और 275 मि०ली० में बीयर एवं 1000 मि०ली०, 275 मि०ली० की धारिता में केवल एल०ए०बी० और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है, की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को, जिला ..... के अन्तर्गत ..... स्थान, पुलिस थाना ..... तहसील ..... के लिये दिनांक ..... से 31 मार्च 20 हेतु, जिसके लिये नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 और स्वापक ओशधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

**सामान्य एवं विशेष शर्तें**

1-लाइसेंसधारी, बीयर (वाइन एवंकम तीव्रता के मादक पेय सहित) की आपूर्ति, अधिमानतः ई-पेमेंट के माध्यम से समय समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् जिला के थोक लाइसेंसधारी (वि०श०-2/वि०श०2ख) से प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि०श०-2/वि०श०2ख लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक लाइसेंसधारी (वि०श०-2/2ख) से बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति प्राप्त करेगा।

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

2-लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

3-लाइसेंस प्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के “बाहर” उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग नहीं की जायेगी।

4-किसी भी व्यक्ति को 650 मि०ली०, 500मि०ली०, 330मि०ली० 300 मि०ली० और 275 मि०ली० में बीयर व एल०ए०बी० एवं वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है तथा अतिरिक्त रूप से केवल एल०ए०बी० के लिये 1000मि०ली० व 275मि०ली० की मानक बोतलों एवं कैंस में बिक्री की जायेगी।

5-बीयर/वाइन/ एल०ए०बी० की बोतलों या कैंस पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित होगा। फुटकर बिक्री का लाइसेंसधारी मुद्रित अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक प्रभारित नहीं करेगा।

6-उपरिलिखित क्षमता के मुहरबन्द बोतलों एवं कैंस में विहित तीव्रता और मात्रा के बीयरएवं वाइन की बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड चस्पा हो, जैसा कि आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

7-लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ०एल०-25ख) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित किया गया हो, में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा एवं उसका वेबसाइट [upexciseonline.in](http://upexciseonline.in) पोर्टल पर SMS के माध्यम से परअपलोड करेगा और उसे जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मॉंगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी विक्रय लेखा आदि उपलब्ध करायेगा तथा निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा यथाअपेक्षित सामग्री तथा दस्तावेजों को सुगमता पूर्वक उपलब्ध करायेगा।

8- लाइसेंसधारी बीयर/वाइन/एल०ए०बी० के सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त लाइसेंस युक्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अधीन विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी०ओ०एस०(प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र अनुरक्षित करने की अपेक्षा की जायेगी।

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

2- लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

3- लाइसेंस प्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के “बाहर” उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग नहीं की जायेगी।

4-किसी भी व्यक्ति को 650 मि०ली०, 500मि०ली०, 330मि०ली० 300 मि०ली० और 275 मि०ली० में बीयर व कम तीव्रता के मादक पेय एवं वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है तथा अतिरिक्त रूप से केवल कम तीव्रता के मादक पेय के लिये 1000मि०ली० व 275मि०ली० की मानक बोतलों एवं कैंस में बिक्री की जायेगी।

5- बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय के लेबिल पर **1x1 सेंटीमीटर के दृश्य शब्दों में अधिकतम** फुटकर मूल्य मुद्रित होगा। फुटकर बिक्री का लाइसेंसधारी मुद्रित अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक प्रभारित नहीं करेगा।

6-उपरिलिखित क्षमता के मुहरबन्द बोतलों एवं कैंस में विहित तीव्रता और मात्रा के बीयरएवं वाइन की बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड चस्पा हो, जैसा कि आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

7-लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ०एल०-25ख) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित किया गया हो, में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा एवं उसका वेबसाइट [यू.पी.एक्स.आई.ज. ऑनलाइन.इन.](http://yupi.eksaizj.onlain.in) पोर्टल पर एस.एम.एस. के माध्यम से पर अपलोड करेगा और उसे जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मॉंगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी विक्रय लेखा आदि उपलब्ध करायेगा तथा निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा यथाअपेक्षित सामग्री तथा दस्तावेजों को सुगमता पूर्वक उपलब्ध करायेगा।

8- लाइसेंसधारी बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय के सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त लाइसेंस युक्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अधीन विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी०ओ०एस०(प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र अनुरक्षित करने की अपेक्षा की जायेगी।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

9-लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:-

“दुकान के परिसर के बाहर, आस-पास या सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

“शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।”

10- लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।

11-लाइसेंसधारी किसी भी क्रेता को 7.8 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित बीयर प्रत्येक अलग-अलग तथा 3 ली0 भारत में भरी हुई व आयातित वाइन दोनों अलग-अलग एवं 6 लीटर की मात्रा से अधिक कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री एक बार में नहीं करेगा, जब तक अन्यथा अनुमति प्राप्त न हो।

12-उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मों या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मों या 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं की जानी चाहिए।

13-लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोटलों या कैनों, उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली से फिक्स किया गया सुरक्षा कोडया प्रूफकैप या मोहरों से बिगाड़ करना, (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।

14- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाश्री), रंग, ईत्र, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:-

“दुकान के परिसर के बाहर, आस-पास या सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

“शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।”

10- लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो इक्सीस वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।

11-लाइसेंसधारी किसी भी क्रेता को 7.8 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित बीयर प्रत्येक अलग-अलग तथा 3 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित वाइन दोनों अलग-अलग एवं 6 लीटर की मात्रा से अधिक कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री एक बार में नहीं करेगा, जब तक अन्यथा अनुमति प्राप्त न हो।

12-उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मों या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मों या 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं की जानी चाहिए।

13-लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोटलों या कैनों, उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली से फिक्स किया गया सुरक्षा कोडया प्रूफकैप या मोहरों से बिगाड़ करना, (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।

14- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाश्री), रंग, ईत्र, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

15- सिवाय लाइसेंसधारी /विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।

16- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। घूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी निषिद्ध है।

17- लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।

18-लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, सिवाय ऐसी गतिविधियों के जिसके लिये लाइसेंस दिया गया है।

19-लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसका निस्तारण समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

20-लाइसेंसधारी को आबकारी आयुक्त एवं लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट अनुदेशों का अनुपालन करना होगा।

दिनांक .....

जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

15- सिवाय लाइसेंसधारी /विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।

16-लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। घूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी निषिद्ध है।

17-लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।

18-लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, सिवाय ऐसी गतिविधियों के जिसके लिये लाइसेंस दिया गया है।

19-लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसका निस्तारण समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

20-लाइसेंसधारी को आबकारी आयुक्त एवं लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट अनुदेशों का अनुपालन करना होगा।

21- लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री का कार्य करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी तदनुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।

दिनांक .....

जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी

आज्ञा से,

(सैंथिल पांडियन सी०)

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश।

## OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

## No. 2619 /X-Licence-77/ Beer Retail Niyamawali /2022-23

Prayagraj, dated: May 27, 2022

## NOTIFICATION

In exercise of the powers under sections 24-B and 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no-IV of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no 1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby makes the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Beer) Rules, 2001 published vide notification no. 12011/X-Licence77/Allahabad/ March 21, 2001 as amended time to time;

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENCES FOR RETAIL SALE OF BEER)  
(TWENTIETH AMENDMENT) RULES, 2022

**1. Short title and Commencement**—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Beer)(**Twentieth Amendment**) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

**2. Amendment of rule-2**—In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Beer) Rules, 2001, hereinafter referred to as the said rules, for rule 2 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

**Column I***Existing rule***Column II***Rule as hereby substituted***2(1) Definition:-**

In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

- (a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910;
- (b) "Beer" includes ale, stout, porter, cider and all other fermented liquors made from malt having alcoholic strength from 3% v/v upto 8% v/v;
- (c) "Daily Licence Fee" means 1/365<sup>th</sup> part of the fixed licence fee for the whole year;
- (d) "Excise Year" means the financial year commencing from April 1 to March 31 of the next calendar year;
- (e) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent sons(s), unmarried daughter(s) and dependent parents;
- (f) "Form" means the form appended to these rules;
- (g) "Licensing Authority" means the Collector of the District;
- (h) "Licence fee" means a sum fixed in consideration of the grant of the licence for exclusive privilege for selling of beer, Wine and Low Alcoholic Beverages in retail shop under section 24-A of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole excise year or part thereof;

Provided that if such shop is settled/ re-settled during middle session for the remaining period of the year, then license fee for shop shall be determined in proportion to the remaining period of the year;

**2(1) Definition:-**

In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

- (a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910;
- (b) "Beer" includes ale, stout, porter, cider and all other fermented liquors made from malt having alcoholic strength from 3% v/v upto 8% v/v;
- (c) "Daily Licence Fee" means 1/365<sup>th</sup> part of the fixed licence fee for the whole year;
- (d) "Excise Year" means the financial year commencing from April 1 to March 31 of the next calendar year;
- (e) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent sons(s), unmarried daughter(s) and dependent parents;
- (f) "Form" means the form appended to these rules;
- (g) "Licensing Authority" means the Collector of the District;
- (h) "Licence fee" means a sum fixed in consideration of the grant of the licence for exclusive privilege for selling of beer, Wine and Low Alcoholic Beverages in retail shop under section 24-A of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole excise year or part thereof;

Provided that if such shop is settled/ re-settled during middle session for the remaining period of the year, then license fee for shop shall be determined in proportion to the remaining period of the year;

Column I	Column II
<i>Existing rule</i>	<i>Rule as hereby substituted</i>
(i) "Security amount" means a sum equal to ten percent of the licence fee to be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government; Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National saving Certificate shall be acceptable until it is not refunded;	(i) "Security amount" means a sum equal to ten percent of the licence fee to be deposited through Fixed Deposit Receipt/ <b>Bank Guarantee</b> pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government; Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National saving Certificate shall be acceptable until it is not refunded;
(j) "Low Strength alcoholic beverages" means the carbonated alcoholic beverages having alcohol upto 5% v/v and above 5% v/v to 10% v/v manufactured from Extra Nuetral alcohol (E.N.A.) and sophisticated by addition of flavouring or colouring matter or both and any other material so as to give it a special flavor;	(j) "Low Strength alcoholic beverages" means the carbonated alcoholic beverages having alcohol upto 5% v/v and above 5% v/v to 10% v/v manufactured from Extra Nuetral alcohol (E.N.A.) and sophisticated by addition of flavouring or colouring matter or both and any other material so as to give it a special flavor;
(k) "Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the maximum retail price of beer/wine/LAB to the next multiple of ten rupees, which shall be payable at Distillery /Brewery/Vintenary level and recoverable by Distillery /Brewery/ Vintenary from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery/ Ex-brewery/ Ex-Vintenary Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price;	(k) "Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the maximum retail price of beer/wine/LAB to the next multiple of ten rupees, which shall be payable at Distillery /Brewery/Vintenary level and recoverable by Distillery /Brewery/ Vintenary from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery/ Ex-brewery/ Ex-Vintenary Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price;
(l) "Earnest money" means the amount equal to 1/10th of the amount of licence fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of licence and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these rules.	(l) "Earnest money" means the amount equal to 1/10th of the amount of licence fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of licence and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these rules.
(m) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e/lottery;	(m) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e/lottery;
(n) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution;	(n) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution;
(o) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail licence;	(o) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail licence;
(p) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of application;	(p) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of application;
(q) "Settlement" means settlement or re-settlement of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year;	(q) "Settlement" means settlement or re-settlement of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year;



**Column I***Existing rule*

- (r) "consideration fee" means a fee for beer, wine and low alcoholic beverages as fixed by the State Government under section 30 of the Excise Act, which shall be deposited in treasury by the licensee prior to supply of beer and low alcoholic beverages;
- (s) "State" means the State of Uttar Pradesh;
- (t) "Wine" means the product obtained on alcoholic fermentation of grape juice or pulp or juice of anyother fruit, natural or fortified the alcoholic content where of does not exceed 42% proof spirit;
- (u) "Quarterly Minimum Guaranteed Revenue" means the equivalent revenue from Beer, Wine and LAB, as fixed by the licensing authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for his retail shop during a quarter of an Excise year for the purpose of retail sale;
- (2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act;

**3.Amendment of rule-6**—In the said rules, for existing rule 6 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

**Column I***Existing rule***6. Grant of licence**

The licence shall be granted on payment of licence fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment in accordance with the provisions of these rules(: Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate shall be acceptable till it is not refunded. The licensee shall be required to furnish the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer in original copy in the district from where it has been issued at the time of grant of licence.

**4. Amendment of rule-8**—In the said rules, for existing rule 8 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

**Column I***Existing rule***8- Eligibility conditions for applicant-**

Eligible applicant for licence of a retail beer shop must fulfill following conditions namely:

- a) Application by an individual who is a citizen of India. Provided, in case of renewal co-applicant, if any who is a citizen of India, shall also be allowed.

**Column II***Rule as hereby substituted*

- (r) "consideration fee" means a fee for beer, wine and low alcoholic beverages as fixed by the State Government under section 30 of the Excise Act, which shall be deposited in treasury by the licensee prior to supply of beer and low alcoholic beverages;
- (s) "State" means the State of Uttar Pradesh;
- (t) "Wine" means the product obtained on alcoholic fermentation of grape juice or pulp or juice of anyother fruit, natural or fortified the alcoholic content where of does not exceed 42% proof spirit;
- (u) "Quarterly Minimum Guaranteed Revenue" means the equivalent revenue from Beer, Wine and LAB, as fixed by the licensing authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for his retail shop during a quarter of an Excise year for the purpose of retail sale;
- (2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act;

**Column II***Rule as hereby substituted***6. Grant of licence**

The licence shall be granted on payment of licence fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt /**Bank Guarantee** pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment in accordance with the provisions of these rules(: Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate shall be acceptable till it is not refunded. The licensee shall be required to furnish the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer in original copy in the district from where it has been issued at the time of grant of licence.

**Column II***Rule as hereby substituted***8- Eligibility conditions for applicant-**

Eligible applicant for licence of a retail beer shop must fulfill following conditions namely:

- a) Application by an individual who is a citizen of India. Provided, in case of renewal co-applicant, if any who is a citizen of India, shall also be allowed.

**Column I***Existing rule*

No partnership firm or company shall be eligible for the grant of retail licence. Likewise, Wholesaler or Distiller/ brewer manufacturer of liquor/beer shall also not be eligible for holding licence of any type of retail shop.

No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. In case of death of licensee his legal heir if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license.

Provided further that if a license is jointly held by two persons, in the event of death of either of them, the survivor along with the legal heir (s) of deceased if otherwise eligible, may continue to hold the license or in case of death of both persons their legal heir(s), if otherwise eligible may continue to hold the license. No distinction will be made between the legal liabilities of the two persons who will be jointly and severally responsible:

- (b) be above twenty-one years of age on the first day of the period fixed for receiving application.
- (c) not be a defaulter/ blacklisted or debarred from holding an excise licence under the provisions or any rules made under the Act. Any person who has been convicted of any excise offence shall be automatically debarred from holding the licence until and unless fully and finally acquitted by the competent court of law.
- (cc) The applicant shall be eligible to make only one application in his own name for any one shop. Provided, in case of renewal, applicant and co-applicant both shall be eligible and their mutual consent for renewal shall be essential.
- (d) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following namely;
  - (i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premises in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time.
  - (ii) that his proposed premises of the shop have not been constructed in violation of any law or rules.
  - (iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under the United Provinces Excise Act, 1910 or the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and nonbailable offence.

**Column II***Rule as hereby substituted*

No partnership firm or company shall be eligible for the grant of retail licence. Likewise, Wholesaler or Distiller/ brewer manufacturer of liquor/beer shall also not be eligible for holding licence of any type of retail shop.

No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. In case of death of licensee his legal heir if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license.

Provided further that if a license is jointly held by two persons, in the event of death of either of them, the survivor along with the legal heir (s) of deceased if otherwise eligible, may continue to hold the license or in case of death of both persons their legal heir(s), if otherwise eligible may continue to hold the license. No distinction will be made between the legal liabilities of the two persons who will be jointly and severally responsible:

- (b) be above twenty-one years of age on the first day of the period fixed for receiving application.
- (c) not be a defaulter/ blacklisted or debarred from holding an excise licence under the provisions or any rules made under the Act. Any person who has been convicted of any excise offence shall be automatically debarred from holding the licence until and unless fully and finally acquitted by the competent court of law.
- (cc) The applicant shall be eligible to make only one application in his own name for any one shop. Provided, in case of renewal, applicant and co-applicant both shall be eligible and their mutual consent for renewal shall be essential.
- (d) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following namely;
  - (i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premises in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time.
  - (ii) that his proposed premises of the shop have not been constructed in violation of any law or rules.
  - (iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under the United Provinces Excise Act, 1910 or the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and nonbailable offence.

**Column I**
*Existing rule*
**Column II**
*Rule as hereby substituted*

- |   |  |
|---|--|
| <p>(iv) that in case he is selected as licensee he will furnish a certificate issued by Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police of the district of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record prior to issuance of license.</p> <p>(v) that he shall not employ and salesman or representative who has criminal background as mentioned in clause (iii) or, who suffers from any infectious contagious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman / representative from District Excise Officer.</p> <p>(vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues.</p> <p>(vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds for conducting the business, the details of which shall be made available to licensing authority if required.</p> <p>(viii) That applicant is not involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities, if after issuance of licence it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted licence shall be cancelled.</p> <p>(ix) That applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the licence then the licence shall be cancelled. An employee of the Government shall also be ineligible to apply for the grant of licence.</p> <p>(x) That In case of being selected as licensee, bank draft of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited in the office of District Excise Officer within 48 hours of such selection.</p> <p>(xi) That he has not made use of bank draft of earnest money for the application of any other shop in the same phase.</p> <p>(e) The applicant shall upload a scanned copy of bank draft issued in favour of District Excise Officer of the district of concerned shop for earnest money, along with online application, as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government.</p> | <p>(iv) that in case he is selected as licensee he will furnish a certificate issued by <b>the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate</b> of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record prior to issuance of license.</p> <p>(v) that he shall not employ and salesman or representative who has criminal background as mentioned in clause (iii) or, who suffers from any infectious contagious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman / representative from District Excise Officer.</p> <p>(vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues.</p> <p>(vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds for conducting the business, the details of which shall be made available to licensing authority if required.</p> <p>(viii) That applicant is not involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities, if after issuance of licence it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted licence shall be cancelled.</p> <p>(ix) That applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the licence then the licence shall be cancelled. An employee of the Government shall also be ineligible to apply for the grant of licence.</p> <p>(x) That In case of being selected as licensee, bank draft of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited in the office of District Excise Officer within 48 hours of such selection.</p> <p>(xi) That he has not made use of bank draft of earnest money for the application of any other shop in the same phase.</p> <p>(e) The applicant shall upload a scanned copy of bank draft issued in favour of District Excise Officer of the district of concerned shop for earnest money, along with online application, as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government.</p> |
|---|--|

**Column I***Existing rule*

In case of selection as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within forty eight hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues.

- (f) The applicant shall be the holder of solvency or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer and the worth of solvency or certificate of owned property certificate issued by authorized Income Tax valuer shall be equivalent to an amount not less than the license fee determined for the grant of licence of the applied shop in the district.

Provided, in case of renewal solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.

**5.Amendment of rule 9**— In the said rules, for existing rule-14 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

**Column I***Existing rule***9. District Level Committee for Licensing-**

There shall be a District Level Committee for selection of licensees for retail sale of beer The committee shall consist of the following members, namely-

(i)	The Collector of the District	Chairman
(ii)	The Senior Superintendent Of Police/ the Superintendent of Police of the District	Member
(iii)	One Gazetted Officer of Excise Department nominated by the Excise Commissioner	Member
(iv)	The District Excise Officer of the District	Member/Secretary

**6. Amendment of rule-10**—In the said rules, for existing rule 10 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

**Column I***Existing rule***10-Selection of licensee-**

- (a) (i) License of shop may be renewed online under the terms and conditions as specified by the State Government.

**Column II***Rule as hereby substituted*

In case of selection as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within forty eight hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues.

- (f) The applicant shall be the holder of solvency or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer and the worth of solvency or certificate of owned property certificate issued by authorized Income Tax valuer shall be equivalent to an amount not less than the license fee determined for the grant of licence of the applied shop in the district.

Provided, in case of renewal solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.

**Column II***Rule as hereby substituted***9. District Level Committee for Licensing-**

There shall be a District Level Committee for selection of licensees for retail sale of beer. The committee shall consist of the following members, namely-

(i)	The Collector of the District	Chairman
(ii)	<b>The Senior Superintendent of Police / Superintendent of Police of the concerning district or an Officer not below the rank of Assistant Commissioner of Police nominated by the Police Commissioner of the concerning Police Commissionerate.</b>	Member
(iii)	One Gazetted Officer of Excise Department nominated by the Excise Commissioner	Member
(iv)	The District Excise Officer of the District	Member/Secretary

**Column II***Rule as hereby substituted***10-Selection of licensee-**

- (a) (i) License of shop may be renewed online under the terms and conditions as specified by the State Government.

### Column I

#### Existing rule

(ii) In case of non-renewal of licences, licensees shall be selected shop wise through the process of e-lottery or e-tender as specified by the State Government through inviting online applications. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare list of all eligible and ineligible applications, describing the reasons of ineligibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing constituted for e-lottery and e-tender.

(b) The said committee shall identify eligible and ineligible applicants. In case of e-lottery the licensee shall be selected for each shop from amongst the eligible applicants through the computer driven randomized arrangement. Randomization process shall be adopted in the order of country liquor, Model Shops, foreign liquor and beer shops as per prescribed hierarchy under respective rule. In case of selection of licensee through e-tender the same aforesaid sequence shall be adopted. Not more than two shops including all categories of country liquor, model shop, foreign liquor and beer shall be allotted in favour of an applicant in the entire State:

Provided that aforesaid restriction shall not be applicable to the renewal of licenses as per the criteria laid down by the State Government;

Provided also that in case of renewal of two or more shops in favour of any applicant in the entire State, he will be ineligible for selection of further shops through e- lottery.

(c) In case the selected applicants does not deposit the required amount and does not fulfill the prescribed formalities or a unable to arrange suitable premises for the shop within stipulated period, the Licensing authority shall cancel the allotment and take immediate necessary steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government.

(d) In case there is no application for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government.

### Column II

#### Rule as hereby substituted

(ii) In case of non-renewal of licences, licensees shall be selected shop wise through the process of e-lottery or e-tender as specified by the State Government through inviting online applications. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare list of all eligible and ineligible applications, describing the reasons of ineligibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing constituted for e-lottery and e-tender.

(b) The said committee shall identify eligible and ineligible applicants. In case of e-lottery the licensee shall be selected for each shop from amongst the eligible applicants through the computer driven randomized arrangement. Randomization process shall be adopted in the order of country liquor, Model Shops, foreign liquor and beer shops as per prescribed hierarchy under respective rule. In case of selection of licensee through e-tender the same aforesaid sequence shall be adopted. Not more than two shops including all categories of country liquor, model shop, foreign liquor and beer shall be allotted in favour of an applicant in the entire State:

Provided that aforesaid restriction shall not be applicable to **matter related to renewal of licenses and mutation of licence in favor of legal heir in the event of death of licensee** as per the criteria laid down by the State Government;

Provided also that in case of renewal of two or more shops in favour of any applicant in the entire State, he will be ineligible for selection of further shops through e- lottery.

(c) In case the selected applicants does not deposit the required amount and does not fulfill the prescribed formalities or a unable to arrange suitable premises for the shop within stipulated period, the Licensing authority shall cancel the allotment and take immediate necessary steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government.

(d) In case there is no application for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government.

**7. Amendment of rule-12** – In the said rules, for existing rule 12 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

**Column I**

*Existing rule*

12. Payment of License fee and Security amount-

In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of licence fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection, and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through E-payment, security amount will be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment.

Provided, in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate shall be acceptable until it is not refunded.

In subsequent year, the licence of the shop may be renewed on the desire of the licensee according to the parameter as fixed by the State Government. Difference amount of license fee and security shall be deposited for renewal within stipulated period as specified by the State Government.

If he fails to deposit the amount of license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled and his earnest money and license fee as well as the security amount deposited by him, shall be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government.

**Column II**

*Rule as hereby substituted*

12. Payment of License fee and Security amount-

In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of licence fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection, and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through E-payment, security amount will be deposited through Fixed Deposit Receipt/**Bank Guarantee** pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment.

Provided, in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate shall be acceptable until it is not refunded.

In subsequent year, the licence of the shop may be renewed on the desire of the licensee according to the parameter as fixed by the State Government. Difference amount of license fee and security shall be deposited for renewal within stipulated period as specified by the State Government.

**Provided**, if he fails to deposit the amount of license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled;

**Provided further that in case of licence being settled through the e-lottery/ e-tender, his earnest money and license fee as well as the security amount, if deposited by him, and in case of licence being renewed, fifteenth percent of security amount of last year along with renewal fee and licence fee, if deposited by him, shall also be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government.**

**8. Amendment of rule-13**– In the said rules, for existing rule 13 set out in Column- I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

**Column I**

*Existing rule*

13. Lifting of beer/Wine/LAB

- (a) The licensee under these rules shall obtain supplies of beer, wine in addition to low alcoholic beverages from any wholesale licence (FL-2/ F.L.2B) of the districts, after making full payment of cost price including all taxes, consideration fee (including additional consideration fee) as levied from time to time preferably through e-payment platform. If the FL-2/F.L.2B licence is not sanctioned or supply interrupts in the concerned district, the licensee shall obtain supplies from wholesale licencees of other district/districts with prior permission of the Excise Commissioner.

**Column II**

*Rule as hereby substituted*

13. Lifting of beer/Wine/LAB

- (a) The licensee under these rules shall obtain supplies of beer, wine in addition to low alcoholic beverages from any wholesale licence (FL-2/ F.L.2B) of the districts, after making full payment of cost price including all taxes, consideration fee (including additional consideration fee) as levied from time to time preferably through e-payment platform. If the FL-2/F.L.2B licence is not sanctioned or supply interrupts in the concerned district, the licensee shall obtain supplies from wholesale licencees of other district/districts with prior permission of the Excise Commissioner.

**Column I**
*Existing rule*

In case of insufficient supply of any district, District Excise Officer shall seek the orders from the Excise Commissioner.

- (b) The Maximum Retail Price- The Maximum Retail Price, as fixed by Excise Commissioner on approval of the State Government, shall be printed on the labels of bottles of beer, wine and low alcoholic beverages. The licensee shall not charge from consumers more than the maximum retail price printed on the labels of bottles and if found to be doing so, he will be penalized as per rules.
- (c) Licensee shall be under obligation to regularly lift beer/wine/low strength alcoholic beverage (LAB) to ensure steady and continuous quality supply as per seasonal requirements of the customers as well as to remove any chances of spurious supplies in the market. He shall regularly place written indents on portal or messages to the wholesaler. In order to meet the above requirements the licensee shall be under obligation to lift in each quarter beer/wine/low strength alcoholic beverage (LAB) at least equivalent to the consideration fee involved in the quantity of beer/wine/low strength alcoholic beverage (LAB) lifted in the preceding year.
- (d)(i) In case the licensee fails to lift beer, wine and LAB at least equivalent to his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue in a quarter, lifting for the next quarter shall be withheld.
- (ii) The licensee shall make a request for condonation of delay and for lifting of beer, wine and LAB equivalent to the shortfall in Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of that quarter along with an affidavit. Upon condonation, the licensee shall deposit an additional security equivalent to the shortfall in Quarterly Minimum Guaranteed Revenue.
- (iii) Additional security so deposited shall be refunded after lifting of beer, wine and LAB equivalent to such shortfall in previous quarter along with Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the next quarter.
- (iv) In case licensee fails to lift beer, wine and LAB equivalent to the Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of one or more quarters before the end of financial year, then the additional security and security deposited by him shall be adjusted against such shortfall of revenue and the remaining security shall be refunded.

If the additional security and security deposited is insufficient for adjustment against the shortfall in revenue, the revenue remaining shall be recovered as if it were arrears of land revenue .

**Column II**
*Rule as hereby substituted*

In case of insufficient supply of any district, District Excise Officer shall seek the orders from the Excise Commissioner.

- (b) The Maximum Retail Price- The Maximum Retail Price, as fixed by Excise Commissioner on approval of the State Government, shall be printed on the labels of bottles of beer, wine and low alcoholic beverages. The licensee shall not charge from consumers more than the maximum retail price printed on the labels of bottles and if found to be doing so, he will be penalized as per rules.
- (c) Licensee shall be under obligation to regularly lift beer/wine/low strength alcoholic beverage (LAB) to ensure steady and continuous quality supply as per seasonal requirements of the customers as well as to remove any chances of spurious supplies in the market. He shall regularly place written indents on portal or messages to the wholesaler. In order to meet the above requirements the licensee shall be under obligation to lift in each quarter beer/wine/low strength alcoholic beverage (LAB) at least equivalent to the consideration fee involved in the quantity of beer/wine/low strength alcoholic beverage (LAB) lifted in the preceding year. **or as calculated for each quarter”**
- (d)(i) In case the licensee fails to lift beer, wine and LAB at least equivalent to his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue in a quarter, lifting for the next quarter shall be withheld.
- (ii) The licensee shall make a request for condonation of delay and for lifting of beer, wine and LAB equivalent to the shortfall in Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of that quarter along with an affidavit. Upon condonation, the licensee shall deposit an additional security equivalent to the shortfall in Quarterly Minimum Guaranteed Revenue.
- (iii) Additional security so deposited shall be refunded after lifting of beer, wine and LAB equivalent to such shortfall in previous quarter along with Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the next quarter.
- (iv) In case licensee fails to lift beer, wine and LAB equivalent to the Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of one or more quarters before the end of financial year, then the additional security and security deposited by him shall be adjusted against such shortfall of revenue and the remaining security shall be refunded.

If the additional security and security deposited is insufficient for adjustment against the shortfall in revenue, the revenue remaining shall be recovered as if it were arrears of land revenue .

<b>Column I</b> <i>Existing rule</i>	<b>Column II</b> <i>Rule as hereby substituted</i>
<p>(e) (i) The licensee desiring to transfer the part of Quarterly Minimum Guaranteed Revenue, which he is not able to lift, to another licensee of the same type, may be allowed such transfer of such portion (quota) on a quarterly basis, within an excise district.</p> <p>(ii) The transferor licensee shall make a request along with the consent of the transferee licensee to the District Excise Officer of the district. The terms of transfer shall be decided by both the transferor and transferee licensees mutually.</p> <p>(iii) On approval of the request of the transferor licensee, the quota agreed upon to be transferred by him shall be deducted from his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue and shall be deemed to have been lifted and it will be added as a transferred Quarterly Minimum Guaranteed Revenue in the account of the transferee licensee. This quantity will be over and above the original Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the transferee licensee and his obligation regarding lifting of his original quota shall not be affected.</p> <p>(iv) A Quarterly Minimum Guaranteed Revenue transfer fee as prescribed by the Excise Commissioner with the previous approval of the State Government, shall be payable by the transferor licensee at the time of making such request;</p> <p>Provided that the total quota transferred under this provision shall not exceed 20% of the Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the transferor licensee. Similarly, the transferee licensee shall not be entitled to receive such transferred quota, in excess of 20% of his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue.</p>	<p>(e) (i) The licensee desiring to transfer the part of Quarterly Minimum Guaranteed Revenue, which he is not able to lift, to another licensee of the same type, may be allowed such transfer of such portion (quota) on a quarterly basis, within an excise district.</p> <p>(ii) The transferor licensee shall make a request along with the consent of the transferee licensee to the District Excise Officer of the district. The terms of transfer shall be decided by both the transferor and transferee licensees mutually.</p> <p>(iii) On approval of the request of the transferor licensee, the quota agreed upon to be transferred by him shall be deducted from his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue and shall be deemed to have been lifted and it will be added as a transferred Quarterly Minimum Guaranteed Revenue in the account of the transferee licensee. This quantity will be over and above the original Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the transferee licensee and his obligation regarding lifting of his original quota shall not be affected.</p> <p>(iv) <b>“omitted”</b></p> <p>Provided that the total quota transferred under this provision shall not exceed 20% of the Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the transferor licensee. Similarly, the transferee licensee shall not be entitled to receive such transferred quota, in excess of 20% of his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue.</p>

**9. Amendment of rule-17A**—In the said rules, for existing rule 17A set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

<b>Column I</b> <i>Existing rule</i>	<b>Column II</b> <i>Rule as hereby substituted</i>
<p>17A- Interim Settlement –</p> <p>(a) In case a licence is suspended, cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules or if the shop remains unsettled for any reason the licensing authority may make interim settlement of the shop at the highest offer on the payment of daily licence fee, on such rates as notified by the Excise Commissioner with prior sanction of the Government for a maximum period of fourteen days at one stretch or till the date of regular settlement, whichever is earlier. In case of obtaining two or more equal offers for one shop, settlement shall be done through manual public lottery. Such licensee shall also be required to deposit security amount according to the rate of daily licence fees for the period of interim settlement.</p>	<p>17A- Interim Settlement –</p> <p>(a) In case a licence is suspended, cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules or if the shop remains unsettled for any reason the licensing authority may make interim settlement of the shop at the highest offer on the payment of daily licence fee, on such rates as notified by the Excise Commissioner with prior sanction of the Government for a maximum period of fourteen days at one stretch or till the date of regular settlement, whichever is earlier. In case of obtaining two or more equal offers for one shop, settlement shall be done through manual public lottery. Such licensee shall also be required to deposit security amount according to the rate of daily licence fees for the period of interim settlement. <b>Such settlement of shop can be done more than twice by the licencing authority ,but in such situation it will be essential to inform the Excise Commissioner.</b></p>



**Column I**
*Existing rule*

Provided that the licensing authority shall not make interim settlement of the shop for more than two times without prior intimation to the Excise Commissioner.

- (b) In case a license is cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules, regular settlement of the shop shall be done as soon as possible by the Licensing Authority through the process of e-tender in mid session after giving public advertisement. The intimation of aforesaid settlement shall be sent forthwith to the Excise Commissioner.

**Column II**
*Rule as hereby substituted*


- (b) In case a license is cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules, regular settlement of the shop shall be done as soon as possible by the Licensing Authority through the process of e-tender in mid session after giving public advertisement. The intimation of aforesaid settlement shall be sent forthwith to the Excise Commissioner.

**10. 11 Amendment of Form F.L. 5B**— In the said rules, for existing Form setout in Column-I below, the Form as setout in Column-II shall be substituted, namely-

**Column I**
*Existing rule*

F.L.--5B  
(FOR RENEWAL)

Licence for the Retail Sale of Beer (Including L.A.B.) in sealed Bottles for consumption "off" the premises



Latitude/Longitude of shop.....  
Licence No.....  
District.....  
Locality.....  
Licence fee Rs..... (in figures)..... (in words)  
Security amount Rs....(in figures)..... (in words)

Description of premises (without boundaries)  
North.....  
South.....  
East.....  
West.....



Name, Father's Name & Address of Licensee(s)---  
1.....s/o.....R/o.....  
2.....s/o.....R/o.....

Name, Father's Name & Address of Salesmen---  
1.....s/o.....R/o.....  
2.....s/o.....R/o.....  
3.....s/o.....R/o.....  
4.....s/o.....R/o.....

**Column II**
*Rule as hereby substituted*

F.L.--5B  
(FOR RENEWAL)

Licence for the Retail Sale of Beer (Including Wine & Low strength alcoholic beverages) in sealed Bottles for consumption "off" the premises



Latitude/Longitude of shop.....  
Licence No.....  
District.....  
Locality.....  
Licence fee Rs..... (in figures)..... (in words)  
Security amount Rs....(in figures)..... (in words)

Description of premises (without boundaries)  
North.....  
South.....  
East.....  
West.....

Name, Father's Name & Address of Licensee(s)---  
1.....s/o.....R/o.....  
2.....s/o.....R/o.....

**“Omitted”**

**Column I**  
*Existing rule*

licence for the retail sale of beer (including Wine & Low Alcoholic Beverages) in standard bottles or cans of capacities 650ml, 500 ml, 330 ml, 300 ml and 275 ml and only L.A.B. in capacities 1000ml, 275 ml as well as wine in such capacities as provided in relevant rules are also allowed for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holders(s) .... at ..... (place) in Police Station. .... Tahsil ..... in the District of ..... w.e.f. from ..... to March 31, 20 ..... for which licence fee and security deposit has been made in accordance with rule-6.

The licence is subject to the following special and general conditions, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

**General and special conditions**

1. The licensee can obtain supply of the Beer (including Wine & Low Alcoholic Beverages) from the wholesale licensee (F.L.-2/F.L.2B) of the district after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L.-2/ F.L.-2B licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of beer, wine and low alcoholic beverages from wholesale licensee (F.L.-2/ F.L.2B) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner.
2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.
3. Sale at the licenced premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/ drunk "on" the premises.
4. Only Standard bottles or cans of 650ml, 500ml, 330ml ,300ml and 275 ml of beer and Low strength alcoholic beverage as well as wine in such capacities as provided in relevant rules and in addition to it 1000ml and 275ml exclusively for Low Alcoholic Beverages shall be sold to any person.
5. Maximum retail price shall be printed on the label of beer/wine/Low Alcoholic Beverages. Retail licensee shall not charge more than the printed Maximum Retail Price.
6. The sale of beer, wine and Low Alcoholic Beverages shall be made in sealed bottles or cans of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.

**Column II**  
*Rule as hereby substituted*

licence for the retail sale of beer (including Wine & Low Alcoholic Beverages) in standard bottles or cans of capacities 650ml, 500 ml, 330 ml, 300 ml and 275 ml and only L.A.B. in capacities 1000ml, 275 ml as well as wine in such capacities as provided in relevant rules are also allowed for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holders(s) .... at ..... (place) in Police Station. .... Tahsil ..... in the District of ..... w.e.f. from ..... to March 31, 20 ..... for which licence fee and security deposit has been made in accordance with rule-6.

The licence is subject to the following special and general conditions, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

**General and special conditions**

1. The licensee can obtain supply of the Beer (including Wine & Low Alcoholic Beverages) from the wholesale licensee (F.L.-2/F.L.2B) of the district after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L.-2/ F.L.-2B licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of beer, wine and low alcoholic beverages from wholesale licensee (F.L.-2/ F.L.2B) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner.
2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.
3. Sale at the licenced premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/ drunk "on" the premises.
4. Only Standard bottles or cans of 650ml, 500ml, 330ml ,300ml and 275 ml of beer and Low strength alcoholic beverage as well as wine in such capacities as provided in relevant rules and in addition to it 1000ml and 275ml exclusively for Low Alcoholic Beverages shall be sold to any person.
5. Maximum retail price shall be printed **in visible words of 1x1 centimeter on** on the label of beer/wine/Low Alcoholic Beverages. Retail licensee shall not charge more than the printed Maximum Retail Price.
6. The sale of beer, wine and Low Alcoholic Beverages shall be made in sealed bottles or cans of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.

**Column I**  
*Existing rule*

7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25B), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.
8. The licensee shall store entire stock of Beer/Wine/Low Alcoholic Beverages in the licence premises only. He shall be required to maintain P.O.S(Point Of Sale ) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.
9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.

The signboard will also display the following information :-

“>Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.

>Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive.”

10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below twenty-one years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.
11. The licensee shall not sale retail sale to any purchaser, in quantity more than 7.8 litres of Beer, Bottled In India and imported, each separately and 3 litres of wine bottled in India and imported, both separately as well as 6 litres of Low Alcoholic Beverages at a time, except under permit.
12. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years, Police personnel below the rank of sub inspector or to a soldier or a official in uniform.
13. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles or cans, their labels, security Code affixed under security System, pilfer proof caps or seals etc.

**Column II**  
*Rule as hereby substituted*

7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25B), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.
8. The licensee shall store entire stock of Beer/Wine/Low Alcoholic Beverages in the licence premises only. He shall be required to maintain P.O.S(Point Of Sale ) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.
9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.

The signboard will also display the following information :-

“>Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.

>Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive.”

10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below twenty-one years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.
11. The licensee shall not sale retail sale to any purchaser, in quantity more than 7.8 litres of Beer, Bottled In India and imported, each separately and 3 litres of wine bottled in India and imported, both separately as well as 6 litres of Low Alcoholic Beverages at a time, except under permit.
12. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years, Police personnel below the rank of sub inspector or to a soldier or a official in uniform.
13. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles or cans, their labels, security Code affixed under security System, pilfer proof caps or seals etc.

**Column I**  
*Existing rule*

14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus labels capsules, seals or any other noxious material.

15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.

16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programme are strictly forbidden.

17. The licenced premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions or relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.

18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except such activities for which licence is granted.

19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with order of Excise Commissioner from time to time in this regards.

20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.

**Column II**  
*Rule as hereby substituted*

14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus labels capsules, seals or any other noxious material.

15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.

16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programme are strictly forbidden.

17. The licenced premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions or relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.

18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except such activities for which licence is granted.

19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with order of Excise Commissioner from time to time in this regards.

20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.

**21. The licensee shall submit the list of sellers to the district excise officer for sale of liquor at his shop. The district excise officer shall issue Naukarnama in prescribed form accordingly.**

Date.....

District.....

Date.....

District.....

Licensing Authority

Licensing Authority

**12. Insertion of new form 5B(1)** –In the said rules for from 5B, the following form shall be substituted, namely:-

**Column I**
*Existing rule*

F.L.—5B (1)  
(FOR NEW LICENCE)

Licence for the Retail Sale of Beer (Including L.A.B.) in sealed Bottles  
for consumption "off" the premises

Photo of  
applicant

Photo of  
shop

Latitude/Longitude of shop.....

Licence No.....

District.....

Locality.....

Licence fee Rs..... (in figures)..... (in words)

Security amount Rs....(in figures)..... (in words)

Description of premises (without boundaries)

North.....

South.....

East.....

West.....

Name, Father's Name &amp; Address of Licensee---

1.....s/o.....R/o.....

Name, Father's Name &amp; Address of Salesmen---

1.....s/o.....R/o.....

2.....s/o.....R/o.....

licence for the retail sale of beer (including Wine & Low Alcoholic Beverages) in standard bottles or cans of capacities 650ml, 500 ml, 330 ml, 300 ml and 275 ml and only L.A.B. in capacities 1000ml, 275 ml as well as wine in such capacities as provided in relevant rules are also allowed for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holders(s) .....at.....(place) in Police Station. ....Tahsil ..... in the District of .....w.e.f. from.....to March 31, 20.....for which licence fee and security deposit has been made in accordance with rule-6.

**Column II**
*Rule as hereby substituted*

F.L.—5B (1)  
(FOR NEW LICENCE)

Licence for the Retail Sale of Beer (Including Wine & L.A.B.) in sealed Bottles  
for consumption "off" the premises

Photo of  
applicant

Photo of  
shop

Latitude/Longitude of shop.....

Licence No.....

District.....

Locality.....

Licence fee Rs..... (in figures)..... (in words)

Security amount Rs....(in figures)..... (in words)

Description of premises (without boundaries)

North.....

South.....

East.....

West.....

Name, Father's Name &amp; Address of Licensee(s)-

1.....s/o.....R/o.....

2.....s/o.....R/o.....

**“Omitted”**

licence for the retail sale of beer (including Wine & Low Alcoholic Beverages) in standard bottles or cans of capacities 650ml, 500 ml, 330 ml, 300 ml and 275 ml and only L.A.B. in capacities 1000ml, 275 ml as well as wine in such capacities as provided in relevant rules are also allowed for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holders(s) .....at.....(place) in Police Station. ....Tahsil ..... in the District of .....w.e.f. from.....to March 31, 20.....for which licence fee and security deposit has been made in accordance with rule-6.

**Column I***Existing rule*

The licence is subject to the following special and general conditions, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

**General and special conditions**

1. The licensee can obtain supply of the Beer (including Wine & Low Alcoholic Beverages) from the wholesale licensee (F.L.-2/F.L.2B) of the district after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L.-2/ F.L.-2B licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of beer, wine and low alcoholic beverages from wholesale licensee (F.L.-2/ F.L.2B) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner.
2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.
3. Sale at the licenced premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/ drunk "on" the premises.
4. . Only Standard bottles or cans of 650ml, 500ml, 330ml ,300ml and 275 ml of beer and LAB as well as wine in such capacities as provided in relevant rules and in addition to it 1000ml and 275ml exclusively for Low Alcoholic Beverages shall be sold to any person.
5. Maximum retail price shall be printed on the label of beer/wine/Low Alcoholic Beverages. Retail licensee shall not charge more than the printed Maximum Retail Price.
6. The sale of beer ,wine and Low Alcoholic Beverages shall be made in sealed bottles or cans of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.
7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25B), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.

**Column II***Rule as hereby substituted*

The licence is subject to the following special and general conditions, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

**General and special conditions**

1. The licensee can obtain supply of the Beer (including Wine & Low Alcoholic Beverages) from the wholesale licensee (F.L.-2/F.L.2B) of the district after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L.-2/ F.L.-2B licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of beer, wine and low alcoholic beverages from wholesale licensee (F.L.-2/ F.L.2B) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner.
2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.
3. Sale at the licenced premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/ drunk "on" the premises.
4. Only Standard bottles or cans of 650ml, 500ml, 330ml ,300ml and 275 ml of beer and Low strength alcoholic beverage as well as wine in such capacities as provided in relevant rules and in addition to it 1000ml and 275ml exclusively for Low Alcoholic Beverages shall be sold to any person.
5. Maximum retail price shall be printed **in visible words of 1x1 centimeter on** on the label of beer/wine/Low Alcoholic Beverages. Retail licensee shall not charge more than the printed Maximum Retail Price.
6. The sale of beer, wine and Low Alcoholic Beverages shall be made in sealed bottles or cans of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.
7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25B), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.

<p style="text-align: center;"><b>Column I</b> <i>Existing rule</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Column II</b> <i>Rule as hereby substituted</i></p>
<p>8. The licensee shall store entire stock of Beer/Wine/Low Alcoholic Beverages in the licence premises only. He shall be required to maintain P.O.S(Point Of Sale ) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.</p>	<p>8. The licensee shall store entire stock of Beer/Wine/Low Alcoholic Beverages in the licence premises only. He shall be required to maintain P.O.S(Point Of Sale ) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.</p>
<p>9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.</p>	<p>9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.</p>
<p>The signboard will also display the following information :-</p> <p>“&gt;Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.</p> <p>&gt;Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive.”</p>	<p>The signboard will also display the following information :-</p> <p>“&gt;Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.</p> <p>&gt;Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive.”</p>
<p>10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below twenty-one years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.</p>	<p>10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below twenty-one years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.</p>
<p>11. The licensee shall not sale retail sale to any purchaser, in quantity more than 7.8 litres of Beer, Bottled In India and imported, each separately and 3 litres of wine, bottled in India and imported, both separately as well as 6 litres of Low Alcoholic Beverages at a time, except under permit.</p>	<p>11. The licensee shall not sale retail sale to any purchaser, in quantity more than 7.8 litres of Beer, Bottled In India and imported, each separately and 3 litres of wine bottled in India and imported, both separately as well as 6 litres of Low Alcoholic Beverages at a time, except under permit.</p>
<p>12. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years, Police personnel below the rank of sub inspector or to a soldier or a official in uniform.</p>	<p>12. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years, Police personnel below the rank of sub inspector or to a soldier or a official in uniform.</p>
<p>13. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles or cans, their labels, security Code affixed under security System, pilfer proof caps or seals etc.</p>	<p>13. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles or cans, their labels, security Code affixed under security System, pilfer proof caps or seals etc.</p>
<p>14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus labels capsules, seals or any other noxious material.</p>	<p>14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus labels capsules, seals or any other noxious material.</p>

**Column I***Existing rule*

15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.

16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programme are strictly forbidden.

17. The licenced premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions or relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.

18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except such activities for which licence is granted.

19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with order of Excise Commissioner from time to time in this regards.

20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.

Date.....  
District.....

Licensing Authority

**Column II***Rule as hereby substituted*

15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.

16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programme are strictly forbidden.

17. The licenced premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions or relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.

18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except such activities for which licence is granted.

19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with order of Excise Commissioner from time to time in this regards.

20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.

**21. The licensee shall submit the list of sellers to the district excise officer for sale of liquor at his shop. The district excise officer shall issue Naukarnama in prescribed form accordingly.**

Date.....  
District.....

Licensing Authority

By order,  
**(Senthil Pandian C.)**  
Excise Commissioner,  
Uttar Pradesh.